



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-21.07.2022

थाना चेतगंज पुलिस टीम द्वारा चोरी के 455714/- रूपये नगद के साथ वांछित अभियुक्त प्रदीप यादव गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज के पर्यवेक्षण में थाना चेतगंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-105/22 धारा 457/380/411 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त प्रदीप यादव पुत्र श्रवण यादव निवासी-J 6/51 बागेश्वरी बाग थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पास से आज दिनांक-21.07.22 को समय करीब 13.20 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 455714/- रूपये नगद व घटना में प्रयुक्त कपड़े, मास्क व ग्लव्स बरामद किये गये। उक्त के सम्बन्ध में थाना चेतगंज पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

दिनांक-19.07.22 को वादी मुकदमा श्री अतुल जायसवाल पुत्र वंशीधर जायसवाल निवासी-बी 7/92-52 जवाहर नगर भेलूपुर वाराणसी ने अभियुक्त प्रदीप यादव के द्वारा उनकी दुकान का ताला तोड़कर लगभग 8 लाख रुपया चोरी करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दिया, जिसके आधार पर थाना चेतगंज में मु0अ0सं0-105/22 धारा 380 भादवि पंजीकृत कर, विवेचना म0उ0नि0 सुमन यादव के द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

प्रदीप यादव पुत्र श्रवण यादव निवासी-J 6/51 बागेश्वरी बाग थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी, उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण- कुल 455714/- रूपये नगद व चोरी के समय प्रयोग में लाये गये कपड़े, मास्क व ग्लव्स बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. म0उ0नि0 सुमन यादव थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 आदित्य सिंह थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी।
3. उ0नि0 सुनील कुमार गौड़ थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का0 दिनेश कुमार थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी।
5. का0 मुकेश यादव थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी।
6. का0 एजाज हुसैन थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी।
7. का0 हरिशंकर मिश्र थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त

वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

